

## प्रेस नोट दिनांक-12.03.2023

(1). आज दिनांक-12.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). आज दिनांक 12.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री अनिल कुमार तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम छेरिया खुर्द बरदहा डैम के पास से डीसीएम रजि0नं0 UP13 BT 6162 में लदे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के 80 अदद पाइप बरामद किये गये।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक-12.03.2023 को थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री अनिल कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में रात्रि चेकिंग में भ्रमणशील थे कि समय करीब 04 बजे सुबह वहद ग्राम छेरिहाखुर्द बरदहा डैम के सामने सड़क पर कुछ अज्ञात व्यक्ति सड़क के किनारे रखे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की पाइप लाइन के पाइपों को चोरी कर सड़क के किनारे खड़ी डीसीएम में लाद रहे थे। पुलिस जीप को आता देख कुछ पिकअप गाड़ी चालक व 05-06 अज्ञात लोग बरदहा डैम की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। डीसीएम नंबर UP13 BT 6162 जिसमें करीब 80 पाइप लदे हैं, डीसीएम को कब्जे पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ठेकेदार श्री बी0एच0 श्रीनिवास की तहरीर पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 08/2023 धारा 457,511 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

डीसीएम वाहन रजि0नं0 UP13 BT 6162

80 अदद पाइप (नमामि गंगे प्रोजेक्ट के)

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री अनिल कुमार
2. आरक्षी प्रशांत कुमार